



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146]
No. 146]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 1982/चैत्र 30, 1904
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 1982/CHAITRA 30, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(पेट्रोलियम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1982

का०आ० 273 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में उरण टर्मिनल से थल-वायुसेत (भार० सी० एफ० प्रोजेक्ट) तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी सारनों के बिछाने के प्रयोजन के लिए एन०पाइप लाइन अधिसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन०द्वारा घोषित किया है।

वशतः कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल

तथा प्राकृतिक गैस आयोग, बम्बई, प्लॉट नं० 9, मि० क्लाम हौमिंग सोमायटी पनबेल, जिला रायगड, महाराष्ट्र को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

उरण टर्मिनल से थल वायुसेत (भार०सी०एफ०प्रोजेक्ट)
तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

| राज्य - महाराष्ट्र | जिला - रायगड | तालुका - अलिबाग | |
|--------------------|----------------|------------------|--------|
| गांव | सर्वेक्षण नंबर | हेक्टेयर में आरई | सेटियर |
| आगरमुरे | 137 | 2बी + 3ए | 0-10.2 |
| | | 2 | |
| | 128 | 0 | 0-00 6 |

[सं०12016/10/82-प्रो०]

पी०पी०खन्ना, संयुक्त सचिव.

**MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND
FERTILIZERS**

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 1982

S.O. 273(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Uran Terminal to Thal-Vaishet (R.C.F. Project) in Maharashtra State Pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission,

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Bombay Offshore

Project, Plot No. 9, Middle Class Housing Society Panvel, Taluka Panvel, District Raigad, Maharashtra State.

And every person making such an objection shall state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

**Pipeline from Uran Terminal to Thal Vaishet (R.C.F. Project).
State—Maharashtra District—Raigad Taluka—Alibag**

| Village | S.No. | H.No. | Area |
|----------|-------|-------|---------------------|
| | | | Hectare-Are-Centare |
| Agarsure | 137 | 2B+3A | 0-10.2 |
| | | 2 | |
| | 128 | 0 | 0-00.6 |

[No. 12016/10/82 Prod.]

P. P. KHANNA, Jt. Secy